



OL/SE/324/Sep 2021-22

September 09, 2021

The Secretary,	The Secretary,
BSE Limited	National Stock Exchange of India
Phiroze Jeejeebhoy Tower Limited,	Limited
Dalal Street, Mumbai-400 001	Exchange Plaza,
	Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
	Mumbai-400 051
Security Code: 532880	Symbol: OMAXE
Fax No. 022-22723121/2037/39/41/61	Fax No. 022-2659 8237/38

<u>Subject: Submission of Newspaper Publication regarding Notice of 32nd Annual General Meeting, E-Voting Information and Book Closure</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provision of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find attached herewith the copies of Newspaper Publication in respect of Notice of 32nd Annual General Meeting of the Company, E-voting, Record Date/Cut-off Date & Book Closure thereto, published in "Financial Express, New Delhi (English Edition) and Jansatta, New Delhi (Hindi Edition)."

The aforesaid newspaper publications are also available on the Company's website i.e. $\underline{www.omaxe.com}$

You are requested to take the same on your records.

Thanking You

For For Omaxe Limited

Navin Jain Company Secretary Company Secretary

Enclosures:

a/a



पासा ज्वलर ।लामटड

पंजी. कार्यालयः सी–54, प्रीत विहार, विकास मार्ग, दिल्ली–110092 फोन: 011-49714971, वेबसाइट: www.pcjeweller.com फैक्सः 011—49714972, ई—मेलः info@pcjeweller.com निगमित पहचान संख्याः L36911DL2005PLC134929

16वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्वारा सुचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों सहपठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपन्न संख्या 02 / 2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, 20 / 2020 दिनांक 5 मई, 2020, 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 14 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 (बाद में सामहिक रूप से "एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अनुपालन में, पीसी ज्वैलर लिमिटेड (**"कंपनी"**) की 16वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गरूवार 30 सितम्बर 2021 दोपहर 1:00 बजे (भा.मा.स.) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (**''वीसी'**')/अन्य ऑंडियो विज्ञल मीन्स (**''ओएवीएम''**) में माध्यम से, एजीएम की सूचना में सम्पादित कामकाजों को करने के लिए आयोजित की जाएगी

परिपन्नों और सेबी परिपन्नों सेबी/एथओ/सीएफडी/सीएमडी2/ सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, एव सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020 के अनुसार, एजीएम के नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन्हीं सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनके ई–मेल आईडी कम्पनी / डिपॉजिटरी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं। कंपनी ने 8 सितम्बर, 2021 को उनका प्रेषण पूरा कर लिया है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.pcjeweller.com, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com और केफिन टेक्नॉलोजी प्राईवेट लिमिटेड "केफिन") की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 सहपठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 वं नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 वं विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम की सूचना में उल्लेखित कामकाज को इलेक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा मतदान करने के अधिकार का प्रयोग करने की खुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने. रिमोट ई—वोटिंग और एजीएम के दौरान ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में केफिन की सेवाएँ ली हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम सूचना में उल्लिखित एजीएम में भाग लेने एवं ई-वोटिंग के लिए निर्देशों को ध्यान से पढें। रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा सोमवार, 27 सितम्बर, 2021, प्रात: 9:00 बजे (भा.म.स.) शुरू होगी और बुद्धवार, 29 सितम्बर, 2021 को साथ 5:00 बजे (भा.म.स.) समाप्त होगी और उसके बाद रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

केंवल ऐसे सदस्य जिनके नाम सदस्यों की पंजिका / लामकारी मालिकों की सूची में गुरूवार, 23 सितम्बर, 2021 ("कट-ऑफ डेट") को दर्ज होंगे, मतदान (रिमोट ई-वोटिंग से एवं एजीएम के दौरान) करने के पात्र होंगे और उनके मतदान के अधिकार कट-ऑफ दिनांक को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के अनुपात में होंगे। ऐसे व्यक्ति जो कट—ऑफ दिनांक को कंपनी का सदस्य नहीं है, वो इस सूचना को केवल जानकारी के रूप में ले।

कंपनी एजीएम में ई–मतदान की सुविधा मी उपलब्ध कराएगी और एजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा पहले ही अपना मत नहीं डाला है, एजीएम में अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ऐसे सदस्य, जिन्होने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मत डाल दिया है, भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन पुनः अपना मत डालने के पात्र नहीं होंगे ।

कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सुचना के प्रेषण के बाद शेयरों का अधिग्रहण करता है और कंपनी का सदस्य बनता है एवं कट–ऑफ दिनांक तक शेयरों को रखता है, युजर आईडी और पासवर्ड एजीएम की सूचना में विस्तार से दिए गए तरीके के अनुसार प्राप्त कर सकता है, जिसमें अन्य बातों के बीच यह भी निर्घारित किया गया है कि सदस्य केफिन के टोल फ्री नंबर 1800—309—4001 पर कॉल कर सकता है या evoting@kfintech.com को ई—मेल अनुरोध भेज

यदि ई-वोटिंग के संबंध में कोई भी प्रश्न है, तो सदस्य https://evoting.kfintech.com पर मौजूद सहायता एवं एफएक्यू अनुमाग का संदर्भ ले सकते हैं या केफिन के टोल फ्री नंबर 1800-309-4001 पर कॉल कर सकते हैं।

ऐसे सदस्य जिन्होंने अभी तक अपना ई—मेल पता दर्ज नहीं किया है से अनुरोध है कि वे नीचे दी

डिमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अपने संबंधित डिपॉजटरी पार्टीसिपेटंस के

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य केफिन के ईमेल पते-einward.ris@kfintech.com पर अनुरोध के साथ हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र की स्कैन प्रति जिसमें की उसका फोलियो नंबर. नाम एवं पता हो, शेयर प्रमाण पत्र की रकेन प्रति: सामने और पीछे से पैन कार्ड की रवप्रमाणित रकेन प्रति और पते के सहयोग में किसी भी दस्तावेज (जैसे कि आधार कार्ड, डाईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट आदि) की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति प्रदान करके, अपना ईमेल पता दर्ज करा सकते हैं।

एजीएम की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करने के सीमित उद्देश्य के लिए, कंपनी ने केफिन के माध्यम से अपने सदस्यों को ई—मेल पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी ई-मेल पते दर्ज करने के लिए लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx का उपयोग करें।

कृते पीसी ज्वैलर लिमिटेड हस्ताक्षरित / -स्थानः दिल्ली (विजय पवार) दिनोंकः ८ सितम्बर, 2021 कंपनी सचिव



CIN: L01111DL1993PLC052845 पंजी. कार्या.: 5190, लाहौरी गेट, दिल्ली - 110 008 फोन: +91-11-23968328, फैक्स: +91-11-23968327 ईमेलः investor@krblindia.com; वेबसाइटः www.krblrice.com

28वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना, रिमोट ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की जानकारी आदि

एतद्द्वारा **सूचित** किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताए) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020 और 02/2021 क्रमशः दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020 और 13 जनवरी, 2021 ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गये परिपन्न सं. सेबी/एचओ/ सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 और सेबी / एवओ / सीएफडी / सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 ("सेबी परिपत्र") के अनुपालन में सामुहिक स्थल पर सदस्यों की उपरिथति के बिना केआरबीएल लिमिटेड के सदस्यों की 28वीं (अट्ठाईस्वीं) वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) मुरूवार, 30 सितम्बर, 2021 को दोपहर 01.00 बजे विखियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय के लेन-देन हेतु आयोजित की जाएगी।

एमसीएम परिपन्न और सेबी परिपन्न के सदर्भ में, 28वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मेजी जा चुकी हैं जिनके ई-मेल पता कंपनी या डिपोजिटरी भागीदार(रों) के साथ पंजीकृत हैं। सभी सदस्यों को समान भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकताएं, एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के साथ समाप्त कर दिया गया है।

कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 17 सितम्बर, 2021 को भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई-वोटिंग'') के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित मदों पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिकली दे सकते हैं। इसके अलावा, सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- (i) रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ होने की तिथि व समयः सोमवार, 27 सितम्बर, 2021
- (ii) रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि व समयः ब्धवार, 29 सितम्बर, 2021 (सायं 5.00 बजे)।
- ऐसा व्यक्ति जिसका नाम डिपोजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में निर्दिश्ट तिथि अर्थात् शुक्रवार, 17 सितम्बर, 2021 को दर्ज हैं, केवल वहीं रिमोट ई-बोटिंग के साथ ही साथ एजीएम में बोट देने
- (iv) एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करने और कंपनी के सदस्य बनने वाले व्यक्ति, एजीएम के नोटिस में यथा वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com, investor@krblindia.com और rta@alankit.com पर अनुरोध मेज कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त
- वे सदस्य जो मोतिक रूप में शेयर रखते हैं, जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतिलिपि ईमेल द्वारा investor@krblindia.com व rta@alankit.com पर भेजकर अपना ईमेल पता पंजीकृत करा सकते हैं।
- एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र जिसमें आपका नाम, फोलियो संख्या और पूरा पता हो: शेयर प्रमाण पत्र (सामने और पीछे) की स्कैन की हुई कॉपी;
- सी. पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी, तथा
- डी. कंपनी के साथ पंजीकरण के रूप में सदस्य के पते के प्रमाण के समर्थन में दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति। (vi) रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से मतदान की अनुमति बुधवार, 29 सितम्बर, 2021
- को सायं 05:00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी। इसके बाद वोटिंग के लिए, ई-वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। (vii) 28वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.krblrice.com,
- इन्वेस्टर रिलेशन्स के लिंक पर और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है। (viii) वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोर्ट ई—वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर
- दिया है, एजीएम में भी भाग ले सकते हैं परन्तु एजीएम पर फिर से अपना वोट देने के हकदार नहीं होंगे। (ix) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग निर्देशों के लिए, सदस्य 28वीं एजीएम के सूचना निर्देशों को
- देख सकते हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ जुड़े किसी भी प्रश्न/शिकायतों के मामले में, सदस्य हेल्प सेक्शन www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य्) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को लिख सकते हैं या +91-22-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं।
- एजीएम के दौरान हुई रिमोट ई-वोटिंग/वोटिंग का परिणाम शनिवार, 02 अक्टूबर, 2021 को या उससे पूर्व घोषित किया जाएगा। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.krblrice.com पर उपलब्ध होगा और इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है, को भी दी जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनयम, 42 के साथ पठित उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी की 28वीं एजीएम के उद्देश्य और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए पात्र सदस्यों के निर्धारण के लिए कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर पुस्तकों शनिवार, 18 सितम्बर, 2021 से गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021 (दोनों दिनों सहित) तक के लिए बंद रहेंगे।

> बोर्ड के आदेशानुसार कृते केआरबीएल लिमिटेड हस्ता/-

रमन सप्रा कंपनी सचिव अपूरवा लिएन फाइनम्स एवड इत्यक्टमट कम्पना लिमिटड CIN: L74899DL1983PL0016713

E: a poorvaleasing@gmail.com; W: www.apoorvaleasingfinance.com. पंजीकृत कार्यालय:तीसरी मंजिस, ब्लॉक १३/३३१, बीता कालोनी, दिल्ली-110031, Phone No.: 011-22446748

कारपोरेट कार्यातय:-सी १/९, सेक्टर-३१, बौतम बुध नवर, नौयडा, ਰo ਸ਼o-201301, PH: 0120 - 4372849

ए**जीएम, ई**-वौटिंग एवं किताबी बंदीकरण के लिए सूचना एतदद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कप्पनी की अटतीसवीं वार्षिक साधारण बैटक (एजीएम) वीरवार 30 सितम्बर, 2021 को दोपहर 2:30 बजे 'मारवल हॉल', बी-35, गुरूनानक पुरा, लक्ष्मी। नगर, दिल्ली-110092 में आयोजित की जायेगी।

कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 91 साथ में पटित कम्पनीज (प्रबन्ध एवं संज्ञालन) नियम, 2014 के नियम 12 एवं सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमन 2015, के नियम 42 के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों की पुस्तिका एवं शेयर इस्तांतरण किताबें 25 सितम्बर, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 (दोनो दिवस शामिल कर) एजीएम के उदेश्य हेत् बंद रहेंगी।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में अटतीसवी एजीएम की सूचन। साथ में कथन एनक्सबर की सुबना एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र उन सदस्यों जिनके ई-मेल पते डिपाट्ररीज/कम्पनी के पास पंजीकृत को इलेक्ट्रानिकली भेज दिये गये हैं। सूचना के साथ तुलन प्रश्न कम्पनी की वेवसाइट www.apoorvaleasingfinance.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 108 साथ में पटित कम्पनीज (प्रबन्ध एवं संवालन) नियम. 2014 के नियम 20 जैसा कि संशोधित, एवं सेबी लिस्टिंग नियमन 44 एवं के अनुसरण में कम्पनी अपने सदस्यों को अपना वोट देने के लिए इलक्ट्रानिक माध्यम द्वारा किसी एक अथवा सभी व्यवसायों पर आयोजित कम्पनी की अटतीसवी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट पर (रिमोट-ई वोटिंग) के लिए एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है।

सदस्यों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग सोमवार 27 सितम्बर, 2021 (प्राव: 9 बजे) से प्रारम्भ डोकर एवं पुधवार 29 सितम्बर, 2021 (05:00 बजे) सार्य पर समाप्त डोगी। कृपया नोट कर से कि इस तिथि एवं समय के उपरान्त ई-वोटिंग खीकार नहीं होगी। कृपया ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा अपना वोट देने के लिए http://www.evoting.nsdl.com पर जाएँ।

एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों की पंजिका/लाभदायक स्वामी का कट आफें तिथि, जो कि वीरवार, 23 सितम्बर, 2021 को अंकित है, केवल वही व्यक्ति ई-वोटिंग की सुविधा के साथ बैठक में वोटिंग का इकदार होगा।

कम्पनी ने सीएस एस॰ पी॰ रंजन, कार्यरत, कम्पनी सचिव, को एजीएम की रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया को सुवारू एवं पारदर्शी तरीके से संवासित करने के लिए जॉबकर्त्ता के रूप में नियुक्त किया है।

एक व्यक्ति जो एजीएम की सूचना को भेजने के पश्चात कम्पनी का सदस्य बना हो एवं कट आफें तिथि शेयर धारित यूजर्र-आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर apoorvaleasing@gmail.com पर आग्रह कर सकता है। एजीएम स्थल पर वोटिंग प्रक्रिया भौतिक मत प्रश्न द्वारा संवातित कराई जायेगी। एक सदस्य अपना वोट रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपने वोट का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन फिर से वोट देने अनुमति नहीं दी जायेगी।

इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा ई-वोटिंग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार पूछताछ अथवा शिकायत के लिए सदस्य कम्पनी पंजीयक एवं शेयर इस्तांतरण एजेंट मैसर्स बिगश्री सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, 302, कुशाल बाजार, 32-33, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 Phone: +91 11 42425004 से सर्पक कर सकते है। सदस्य पूछताछ मामले के लिए लगातार प्रश्न पूछने (एफएक्यूज) को संदर्भित कर सकते हैं अथवा ई-वोटिंग नियम पुरितक। www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध की सहायता शाखा अथवा evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल द्वारा लिख सकते हैं।

> बोर्ड के आवेशान सार कृते अपुरवा सिजिन फाईने-स एवड इ-वेटमेंट फॅ॰ लिमिटेड

> > पंकज मिश्रा

कम्पनी सचिव

स्थान: दिल्ली: तिथि: 8 सितम्बर, 2021

■ OMAXE

OMAXE LIMITED (CIN: L74899HR1989PLC051918) Regd. Office: Shop No-19 B, First Floor, Omaxe Celebration Mall, Sohna Road, Gurugram, Haryana-122001 Corp. Office: Omaxe House, 7, Local shopping Complex, Kalkaji, New Delhi-110019

Tel: 011-41896680-85; Fax: 011-41896653 Email: secretarial_1@omaxe.com | Website: www.omaxe.com

NOTICE

NOTICE OF 32^{NO} ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'ACT') and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("Listing Regulations") read with relevant circular issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular") and also Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the members of Omaxe Limited ("Company") will be held on Thursday, September 30, 2021 at 12:00 noon through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the members at the common venue to transact the Ordinary and Special Businesses as stated in the Notice convening the

In compliance with the provisions of MCA vide its Circular No.14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020; Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and SEBI circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021, Notice of the AGM together with the Financial Statements (Standalone and Consolidated) for the financial year ended on March 31, 2021 including the Schedules thereto and reports of Board of Directors & Auditors, Report on Corporate Governance, The instruction for e-voting and participation in the AGM have been sent through electronic mode to those Members whose email IDs are available with the Company/Depositories/RTA in accordance with the aforesaid MCA circulars & SEBI Circulars. The electronic dispatch of Annual Report to the Members has been completed on September 08, 2021. The Notice of the 32nd AGM along with the Annual Report for the FY 2020-21 are also available on the Company's website www.omaxe.com and website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of Link Intime India Private Limited at URL: https://instameet.linkintime.co.in

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote by electronic means on proposed resolutions to be passed at AGM. The voting rights of Members shall be as per the number of equity shares held by the members as on the cut-off/record date which is Thursday, September 23, 2021. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and to participate in the

The e-voting period commences on Monday, September 27, 2021 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, September 29, 2021 at 5.00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by Link Intime India Private Limited for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholders shall not be allowed to change it subsequently. The members who may have cast their vote through remote e-voting may participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be allowed to cast their vote again through e-voting facility during the AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Thursday, September 23, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at instameet@linkintime.co.in or contact on 022-49186175.

For the procedure of electronic voting please refer to the detailed instructions for e-voting which forms part of the Notice of 32nd Annual General Meeting before exercising your voting right. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available on the website https://instameet.linkintime.co.in under the Help & FAQ's Section or you can contact on 022-49186175 or at designated e-mail ID instameet@linkintime.co.in, who will address the grievances related to electronic voting. The Members may also write to the Company Secretary at investors@omaxe.com

Members who have not registered their email ID with the depository participants, are requested to register their email ID with their depository participants in respect of shares held in electronic form and in respect of shares held in physical form, are requested to submit their request with their valid email ID to our RTA at delhi@linkintime.co.in or investors@omaxe.com along with signed scanned copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and copy of share certificate. Those members who have registered their e-mail address, mobile number, postal address and bank account details are requested to validate/update their registered details by contacting their Depository Participant in case share held in electronic mode or by contacting our RTA Link Intime India Private Limited.

Members may participate in the AGM through VC/ OAVM at https:// instameet.linkintime.co.in / by using their remote e-voting login credentials and selecting the 'Event' for Company's AGM. Members who do not have the User ID and Password for evoting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-voting instructions mentioned in the Notice.

Members, who need technical assistance before or during the AGM, can contact RTA at https://instameet.linkintime.co.in.

Facility of joining the AGM through VC / OAVM shall open 15 minutes before the time scheduled for the AGM and will be available for Members on first come first served basis. Members, who would like to ask questions during the 32nd AGM need to register themselves as a speaker by sending their request from their registered email address mentioning their name, DPID and Client ID number/folio number and mobile number, on the email addresses investors@omaxe.com or by downloading and installing the Webex application by clicking on the link https://www.webex.com/downloads.html/. from September 27, 2021 at 9.00 am (IST) to September 29, 2021 at 5.00 pm (IST). Those Members who have registered themselves as a speaker only shall be allowed to ask questions during the 32nd AGM, depending upon the availability of time, However, it is requested to raise the questions precisely and in short at the time of meeting to enable us to answer the same. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 24, 2021 to Thursday, September 30, 2021 (both days inclusive) in connection with Annual General Meeting and annual closing. By order of the Board

For Omaxe Limited

Navin Jain Company Secretary

Indusind के इंडसइंड देंक लि एफ आर आर डिपॉर्टमेंट, 11था तल, हयात राजशा काप्पलक्स, न्यू टाबर, पा इडसइड बेक लिामटड

नई दिल्ली-110066 सार्वजनिक सुचन

(प्रतिभृति हित (प्रवातन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के तहत) वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्पाण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अभिनियम, 2002 की भारा 13(2) के तहत सूचना की वैकल्पिक सर्विस

एतद्वार। एताहुन करदुक्शन प्रा.ति.. तबरस्यम् अङ्गमदः, सादिया अङ्गमदः, श्री नौशाद अङ्गमदः, आपिर अङ्गमद को सुवना दी जाती है कि जूकि उन्होंने इडसइड बैंक लिपिटेड (बैंक) से वीआइंस्त लिपिटेड द्वारा प्रहम की गयी दरम सुविध के पुनर्पुगतान में जूक को है. अतः आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार 31,03,2017 को उनके दृशा खाते बैंक को पुरनकों में नॉन- मफोपिंग आरित के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। इसके परवात बैंक ने वितीय आरितयों के प्रतिभूतिकरण एव पुनर्निपांण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम. 2002 ("सरफैसी अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत किमत मांग सूबनाओं में उत्तिक्षित उपयुंक राशि पर अनुबन्धात्मक दर से भावी ब्यान एव आकरिमक व्ययों. लागत. प्रभारों आदि सहित 23.08.2021 तक सम्पूर्ण बकाया राशि रू. 47.55.89.9237 (रूपये सैंनालीस करोड़ पवपन लाख नवासी हजार नी सौ नेइंस पात्र) का भुगतान करने के लिए कहते हुए कमिन कजंदारीं के अन्तिप ज्ञान पर्ने पर 25.08.2021 को माग सूबना जारों को हैं।

बक्रि निप्नतिक्षित कर्गदारों के लिए बारी कभित्र माग सुबनाए अन सन्दं वापस कर दी गयाँ अनः प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफैसी नियम) के नियम 3 के अनुसार इस प्रकार इस प्रकाशन के माध्यम सर्विस सम्पन

एलाइन केस्ट्रवरात्स प्रात्ति. (क्यककर्ता तथा जपानती,

कासमुम आरम्पद, सादिया आरमद, श्री नीशाट आरमद, आर्मिल आरमद, ए∙४/७2. विशाल खण्ड

अवल सम्पत्ति का विवारण

तहसील नवाबगण एवं जिला बाराधको. उ.प्र.

भूमि छ।सर। न. 196/1 का प्लॉट, ग्राम भूहेरा, परगना-देवा तहसीता नवाबगरा एवा शिला बासवाको. उ.प्र. भूमि क्षासरा न. 196/2 का प्लॉट. ग्राम भूडेरा. परगना-देवा

भूमि क्षासरा न. 196/3 का प्लॉट, प्राप भूहेरा, परगना-देवा तहसील नवाबगण एवं जिला बाराधको. उ.प्र. भूमि खासरा न. 201 का प्लॉट, ग्राम भूडेरा, परगना देशा सादिया अन्नपर तहसील नवाबगण एवं जिला बाराधकी, उ.प्र.

एवं लागत, प्रभारों, य्ययों आदि सहित उपर्युक्त अकाया राशि का भुगतान करने को कहते हैं जिसमें असफल रहने पर इप कबजा लेने तथा प्रतिभृति आरिव की बिक्री सहित पूर्ण रूप से आपके जोखिम और लागत पर प्रतिभृति हिरा प्रशर्तित करने के लिए आध्य होंगे। कृषया ध्यान दें कि सरफैसी अधिनियम की धारा 13(13) के तहत कर्जदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति

लकेमा। आपके द्वारा कथित श्वारा का कोई उल्लंबन सरफैसी अधिनियम की श्वारा 29 राधा/अधया इस सम्बन्ध में अन्य विक्रिक प्रावधानों के तहत दण्डात्मक प्रावधान के भागी होंगे।

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 08.09.2021

कृते इंडसइंड चैंक, प्राधिकृत अधिकारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911 शाखा कार्यालयः जनकपुरी, नई दिल्ली

कब्जा सूचना (अवल सम्पत्ति के लिए)

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), अधिनियम २००२ के नियम ८(१) के तहत जबिक वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, **जनकपुरी, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग मुचना दिनांक 04/05/2021 जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार:** श्रीमती ललिता कटारिया पत्नी श्री चन्दर प्रकाश कटारिया एवं <u>सह-कर्जदारः</u> मिस आश्ले कटारिया पुत्री श्री चन्दर प्रकाश कटारिया, को सूचना में उल्लिखित राशि रु.11,99,437.25 (ग्यारह लाख निन्यानबे हजार चार सौ सैंतीस रूपये पच्चीस पैसे मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदारों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक** 08.09.2021 को ले लिया है। कर्जदारों को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन रु.11,99,437.25 (ग्यारह लाख निन्यानबे हजार चार सौ सैंतीस रूपये पच्चीस पैसे मात्र) और उस पर ब्याज के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जनकप्री, नई दिल्ली शाखा के प्रभार के भूगतान के अधीन होगा। आपका घ्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जिसमें स्थित सम्पत्ति शामिल है: फ्लैट नं.358, डीडीए जनता फ्लैट, पॉकेट—2, पश्चिमपूरी, नई दिल्ली—110063. क्षेत्रफल परिमाप 500 वर्गफीट। जो घिरा है:-

पूर्वः दूसरों की सम्पत्ति पश्चिमः दूसरों की सम्पत्ति उत्तरः दूसरों की सम्पत्ति

दक्षिणः रोड

स्थानः नर्ड दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी तिथि: 08/09/2021 सेंटल वैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ़ इंडिया 🗖

बैक ऑफ इंडिया

सम्पत्तियों की ई-नीलामी- 27.09.202 बैंक ऑफ इंडिया, आंबलिक कार्यालय, नई दिल्ली जोन, "स्टार हाउस", एवं -2, कर्नीट सर्कस, मध्य / बात

इ-नीलामी की सूचना

प्रतिमृति डित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत अचल संपत्तियों की ब्रिकी के लिए ई-निलामी बिकी सूचना।

के पास गिरवी / वार्जंड अवल संपत्ति जिसे बँक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा से लिया गया है, दिनांक 27.09.2021 को प्रात: 11.00 से सांय 05.00 बजे के बीव प्रतिमृति हित (प्रवर्तन), नियमावली, 2002 के प्रावधानों के नियम 8(6) के लाख पटित विस्तीय परिलंपस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत 'जैसी है' 'जहां हैं'' ''जो हैं'' के आघार पर ई-नीलामी की जायेगी।

बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिण विवरण नीचे दिया गया है. वसूली जाने वाली राशि (सुरक्षित ऋण) और कथ्जे के विवरण भी नीचे दी गई तालिका में चल्लिखित हैं

क. सं.	उधारकर्ता(ऑ) / गारंटर(ऑ) / बंधक(ऑ) का नाम	संपत्ति का विवरण	कुल बकाया	अ. आरक्षित मृल्य ब. ईएमडी स. वृद्धिशील बोली	अधिकृत अधिकारी संपर्क नंबर के साथ
1.	 मैंसर्ल बॉन मार्ट इंटरनेशनल लिमिटेड निदेशक / गारंटर : श्री सकेश बंसल निदेशक / गारंटर : श्री सनेइ प्रकाश बंसल निदेशक / गारंटर : श्री तुगर बंसल 	(आवालीय) मलेंट नं. बी-1205 ए, 12 वीं मंजिल. ब्लॉक-बी. एसलीली सँफोर, खरारा नंबर 1010, 1011 और 1012, राज नगर एक्सटेंशन, एनएय 58, ग्राम नूर नगर, परगना लोनो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में भी तुषार बंसल के स्वामित्व में क्षेत्रफल -140.75 वर्ग मीटर। (यह संपत्ति बँक के मौतिक कब्जे में हैं)	+ यूलीआई + अन्य शुल्क	अ. त्र. 35.00 लाख य. त्र. 3.50 लाख स. त्र. 10,000/-	चिरंजीया एन सिंह मो नं 6202980894 फोन 011-23717344

नियम व शर्ते

1) नीलामी की बिज़ी / बोली केवल वेबसाइट https://www.mistcacommerce.com/auction.home/ibapi/index.jsp के माध्यम से 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली' प्रक्रिया के माध्यम से होगी।

पालवर्ड प्राप्त करना होगा और ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन ईएमडी को जमा करना होगा, तदलपरान्त लन्हे लक्त पोटर्ल पर ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अनुमति मिलेगी। 3) नीलामी की तिथि और समयः 27.09.2021 को पातः 11:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ |

2) इंब्हुक बोलीदाताओं को eBkray पोर्टल https://www.msicecommerce.com/auctionhometbaps/index.jsp पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और अपना / अपनी यूजर आईडी और

5) ई-नीलामी, आरक्षित मूल्य प्लस प्रथम वृद्धिशील मूल्य पर शुरू होगी, जँसा कि ऊपर बताया गया है। उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गुणकों में बोलीदाता अपने प्रस्तावों में सुधार कर सकेगें। 6) इच्छुक बोलीदाता ई-ऑक्शन में सुगम भागीदारी के लिए ईएमडी यानी बोली की राशि का 10% ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में आवश्यक दस्तावेजों / विवरणों के साथ

उच्चतम / सफल बोलीदाता को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि जो कि बोली राशि का 10% हैं, को मिलाकर

बोली / खरीद राशि का 25% बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंकिंग अवधि के दौरान) जमा करनी होगी अन्यवा उसकी ईएमडी राशि जब्द कर ली जाएगी। 8) बोली/खरीद सिश की शेष 75% सिश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 वें दिन या उलले पहले (बैंकिंग कार्यदिवल के दाँसन) या पूरी तरह ले प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार लिखित में किए गए समझौते के अनुसार बढ़ाई गयी ऐसी किसी तिथि तक जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा

की गयी सशि को जब्द कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी / बँक के पाल नीलामी रह करने और नई नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा। छ) लंपूर्ण विक्रय होने पर, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और बँक कोई दावा नहीं करेगा।

10) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक देखें — https://www.bankofindla.co.in/Dynamic/Tender?Type=3

11) यह प्रकाशन ' खपरोक्त ख्यारकर्ताओं / गारंटरों / गिरवीदारों को 15 दिनों का अग्रिम नोटिस भी है ।

Parsvnaths Parsynath Developers Limited

ख्यानः नई दिल्ली

दिनांकः 09.09.2021

Registered & Corporate Office: Parsynath Tower, Near Shahdara Metro Station, Shahdara, Delhi - 110032 CIN: L45201DL1990PLC040945; Phone No: 011-43010500, 011-43050100; Fax No: 011-43050473 e-mail address: secretarial@parsvnath.com; Website: www.parsvnath.com

> 30वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजने की पूर्णता, पुस्तिका बंद होने तथा ई-वोटिंग की सूचना

30वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो कांफेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विज्ञल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से बृहस्पतिवार, 30 सितम्बर, 2021 को प्रात:11:30 बजे आयोजित की जायेगी। एमसीए तथा सेबी द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की कम्पनी की वार्षिक रिपीट तथा एजीएम की सूचना ई-मेल द्वारा कम्पनी के सदस्यों के पास उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजी जा चुकी है। उपर्युक्त वार्षिक रिपोट तथा एजीएम आयोजित करने की सूचना को ई-मेल द्वारा भेजने का कार्य 08 सितम्बर, 2021 को पूरा किया जा चुका है।

जिन सदस्यों ने अब तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं वे कृपया अपने सम्बन्धित डिपॉजिटरी भागीदारों के पास (डीमैंट प्रारूप में शेयर धारिता के मामले में) अथवा मास सर्विसेज लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट (आरटीए) (भौतिक प्रारूप में शेयरधारिता के मामले में) के पास पंजीकृत करा लें।

एतद्वारा सदस्यों को सुचित किया जाता है कि 30वीं एजीएम की सूचना तथा कम्पनी की वार्षिक रिपीट कम्पनी की वेवसाइट www.parsvnath.com तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिडेट (एनएसडीएल) की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के विनियम 44 सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 के साथ पठित समय-समय पर यथासंशोधित उसके तहत निर्मित प्रासंगिक नियमों एव उपयुर्वत परिपत्रों के अनुसार कम्पनी 30वीं एजीएम में पारित कियें जाने वाले प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने के लिए सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रावधानित कर रही है। सदस्यों को पुनः सुचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा हेतु पात्र सदस्यों को सुनिश्चत करने के उददेश्य से कट-ऑफ तिथि बृहस्पतिवार, 23 सितम्बर, 2021 निर्धारित की गयी है। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी के पास उपलब्ध लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा ग्रहण करने के पात्र होंगे।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि रिमोट ई-वोटिंग प्रकिया सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 को प्रातः 9:00 बजे प्रारम्भ होगी और बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को सायः 5:00 बजे तक खुली रहेगी। इसके पश्चात रिमोट ई-वोटिंग मॉडयूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर लेने के उपरान्त उसे इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया है वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान किया है वे भी एजीएम में उपस्थित रह सकते है किन्तु वे एजीएम के दौरान दोबारा मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

ई-वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए कम्पनी ने श्री अशोक त्यागी (सदस्यता सं F2968, सी पी सं 7322) कार्यरत सचिव को संवीक्षक के रूप में नियक्त

ई-वोटिंग में अपना मतदान करने के लिए सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं या सदस्य www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध शेयरधारको द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा शेयरधारको के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का सन्दर्भ लें या टोल फ्री नं 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेजे।

ई-योटिंग से सम्बन्धित कोई पूछताछ या शिकायत के लिए सम्पर्क करें : श्री मडंन मिश्रा, कम्पनी सचिव, ई-मेल पता : secretarial@parsvnath.com ,पता : पार्श्वनाथ टॉवर, निकट शाहदरा मेट्रो स्टेशन, शाहदरा, दिल्ली —110032, सम्पर्क नं : 011—4310500 / 43050100

कोई व्यक्ति ई-मेल द्वारा सूचना तथा वार्षिक रिपोंट भेजे जाने के उपरान्त सदस्य बन जाता है किन्तु जो कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है वह वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकता है। ऐसा सदस्य ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है तथा ई-मेल द्वारा वार्षिक रिपीट और एजीएम अयोजित करने की सूचना की एक प्रति और ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपने प्रासंगिक विवरणों जैसे डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी / फोलियों नं0 सहित आरटीए

चुंकि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार 30वीं एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जायेगी, अतः सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है।

एतद्वारा यह सूचना भी दी जाती है कि अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों तथा सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 42 के अनुसार 30वीं एजीएम के उददेश्स से सदस्यों के रिजस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ, शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 से बृहस्परिवार,30 सितम्बर, 2021 (दोनो तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी।

> निदेशक मंडल के आदेशानुसार कते पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड हस्ता/-

www.readwhere.com

स्थानः नोएडा, उत्तर प्रदेश दिनांकः 08 सितम्बर, 2021

Date: September 08, 2021

Place: New Delhi

स्थानः दिल्ली

दिनांक: 08, सितम्बर, 2021

प्तरि १, २७, गुलगार कॉलोगे, बिनहर, ताखनङ, उत्तर प्रदेश-२२७१०ऽ प्रतिभृत आस्ति का विवारण बायककार्ता क्शस्त्रम् असमद

स्ताइन करटुक्शन्स प्रा.ति. इम एउद्धारा यहाँ ठिल्लिखित कर्जदरों से इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भाषी अयाज

तबारसुम असमद

के बिना उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों में से किसी का भी अन्तरण बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से नहीं कर

प्रतिमृति डित (प्रवर्तन), नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं प्निर्माण तथा एतदृद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से उघारकर्ता(ओ) और गारंटर(ओ) जिनका विवरण नीचें दिया गया है, को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित प्रतिमूति ऋणदाता अर्थात बँक ऑफ इंडिय

सर्कत, पीवीआर प्लाजा डॉल, नई दिल्ली के सपीप - 110001. फोन नंबर 011-28844099

4) संपत्ति का निरीक्षण संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व नियुक्ति के साथ 18.09.2021 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 04.00 बजे के बीच किया जा सकता है।

24.09.2021 से महले eBkray मोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/lbapi/index.jsp मर जना कर लें |

एतद्वारा यह सुचित किया जाता है कि एजीएम आयोजित करने की सुचना में उल्लेखित सामान्य तथा विशेष व्यवसायों के निष्पादन के लिए पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के सदस्यों की

तदनुसार सदस्यो द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

(मंडन मिश्रा) कंपनी सचिव एव अनुपालन अधिकारी सदस्यता स. ए-14374

प्राधिकृत अधिकारीः बैंक ऑफ इंडिया

एजीएम में उपस्थित होने तथा रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु विस्तृत प्रकिया / निर्देश 30वीं एजीएम की सूचना में शामिल हैं।

के पास investor@masserv.com पर तथा एक कॉपी secretarial@parsvnath.com पर कम्पनी के पास रिक्वीजीशन भेजें।

FINANCIAL EXPRESS

DATALINE AND RESEARCH TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED

CIN: U99999 MH1992 PLCO 68586 Regd. Off.: 419-A, Arun Chambers, 4th Floor, Tardeo, Mumbai 400034

NOTICE is hereby given that the 29th (Twenty Ninth) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Dataline and Research Technologies [India] Limited will be held on Thursday, 30th September, 2021 at 2,00 p.m. [IST] through Video Conferencing [VC] / Other Audio Visual Means [OAVM] to transact the business as set out in the Notice of 29th AGM. The same will also be made available on the on the website of Central Depository Services Limited (CDSL) www.evotingindia.com.

In view of the continuing COVID-19 pandemic, social distancing norms to be followed and the continuing restriction on movement of individuals at several place in the country, and pursuant to the General Circular numbers 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ["MCA"] [hereinafter collectively referred to as "the Circulars"], companies are allowed to hold AGM through VC/ QAV M, with out the physical presence of members at a common venue. In compliance with the aforesaid Circulars, Companies Act, 2013 ["the Act"], the AGM of the Company will be held through VC/QAVM.

Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year ended 31° March, 2021 have been sent electronically on 08th day of September, 2021 to those members whose e-mail address [es] are registered with the Company/Depositary Participant[s]/Registrar and Share Transfer Agent as on Friday, 27th August, 2021.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 24th September, 2021 to Thursday 30th September, 2021 [both days Inclusive] for the purpose of 29th

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies | Management and Administration| Rules, 2014 | as amended from time to time|, Regulation 44 of SEBI | Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 |as amended from time to time], and the Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with CDSL for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using e-voting system on the date of the AGM will be provided by CDSL.

All the members are hereby informed that:-

- The business as set forth in the Notice of 29th AGM shall be transacted through electronic means.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote through electronic means shall be Thursday, 23rd September, 2021. Persons Whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained as on cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as the e-voting at the AGM.
- E-voting portal will remain open from Saturday, 25th September, 2021 [9.00 a.m. IST] and ends on Wednesday, 29th September, 2021 [5:00 p.m. IST]. The e-voting module shall be disabled by CDSL the reafter and voting shall not be allowed beyond said time.
- 4. Any person, who acquires shares and becomes a member of the Company after the dispatch of the notice and hold shares as on cutoff date i.e. Thursday, 23rd September, 2021, may obtain login ID and password by sending a requestion helpdeskievoting@odslindia. com, to cast their vote electronically.
- 5. The members who have cast their vote by e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again The manner of remote e-voting and e-voting during the AGM, for members holding shares in physical mode, dematerialized mode and

for those members who have registered their e-mail addresses is provided in detail in Notice of AGM. M/s. Anshul Bhatt & Associates, Company Secretaries, Mumbai, have been appointed as the Scrutinizer for scrutinizing the e-voting process in a fair and transparent manner. The results declared along with the Scrutin izer's Report within the prescribed period under the provisions of the Act, shall be displayed on the Website of Central Depository Services [India] Limited ["CDSL"] at www.evotingindia.com. For detailed instructions of e-voting, members may refer to the Section 'E-voting Process' in the Notice of 29th AGM. In case you have any queries or grievances regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ["FAQs"] and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 022-23058738/022-23058542/43. Members may also write to the Compliance Officer of the Company at compliance distalling @ gmail.com.

For Dataline and Research Technologies [india]Limited

Place: Mumbal Date: 08th September, 2021

Nittin Sawant Directo DIN: 00850449



punjab national bank

SI - 4

एस.सी.ओ. 29-31, मॉडल टाऊन, फेस - 1,Together for the better बिठेडा - 151001, ई-मेल: clpc6360@pnb.co.in

60 Days' Notice to Guarantor/Mortgagor

Regd. Post Date: 07.05.2021

M/s VRC Township Private Limited, First Floor, plot no. 16, Paschim Vihar Ext., Rohtak Road, Paschim Vihar, Delhi, West Delhi – 110063/

NOTICE U/S 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002.

Reg : Account No. 0050008700009210 of CC facilty, NFB facility & 005000CF00000776 of CFITL

facility /credit facilities availed by M/s Salasar Foods.

M/s Salasar Foods Proprietor Ms. Rimmy Garg; 2935 Opposite Namdev Marg, GT Road, Bhatinda 151001 have availed the following credit facilities:

Balance outstanding as on Total outstanding as on Interest w.e.f.

No.	Facility	Limit	Interest	(ie., principal + interest)	01.04.2021	07.05.2021
1.	FB & NFB	Rs. 38,00,00,000.00	11.10%	Rs. 34,97,72,004.85	Further interest w.e.f. 01.04.2021	Rs. 29,22,50,263.85 + further interest w.e.f. 01.04.2021 + Charges, if any
2.	CFITL	Rs. 1,95,70,997.00	11.10%	Rs. 2,05,21,671.00	Further interest w.e.f. 01.04.2021	Rs. 2,05,21,671.00 + further interest w.e.f. 01.04.2021 + Charges, if any
		TOTAL		Rs. 37,02,93,675.85 + further Interest	interest we e	Rs. 31,27,71,934.85 + further Interest w.e.f. 01.04.2021 + Charges, if any

Performing Asset as per Reserve Bank of India guidelines. We have demanded/recalled the entire outstanding together with interest and other charges due under the above facilities from the Borrower vide letter dated 05.04.2021, copy of which has already been sent to you. We have invoked the guarantee vide letter dated 07.04.2021 The amount due to the Bank as on 07.05.2021 is Rs.31,27,71,934.85 (Rupees Thirty One Crore

Twenty Seven Lakh Seventy One Thousand Nine Hundred Thirty Four and Eighty Five paisa only) with further interest w.e.f. 01.04.2021 & other charges, if any until payment in full (hereinafter referred to as "secured debt").

To secure the outstanding under the above said facilities, you have, inter alia, created security interest in respect of the following properties/assets:

No.	Facility	Security			
1.		Primary Security -			
160					
	based &	/ depots of the party or in transit and all Book Debts > Assignment of documents covering consignment by bill of lading along with			
	(COVID	shipping documents.			
	100000000000000000000000000000000000000	Collateral security –			
ı	Funded	> Immovable properties, mentioned below:			

 Land within Municipal Limits and Commercial Zone as per the Master Plan situated at Malout Road, Near Volkswagen showroom, Bhatinda bearing RTD No. 7820 dt 31.12.2007 for 19 Bigha 11 Biswas, RTD No. 2191 dt. 11.06.2007 for 19 Bigha 11 Biswas, RTD No. 9286 dt. 07.02.2008 for 3 Bigha 6 Biswas & RTD No. 6411 dt. 21,11,2007 for 11 Bigha 0.71 Biswas; Total Land measuring 53 Bighas 8,71 Biswas in the name of M/s VRC Township private limited. Plot No. 141, Part I & II. Green City, Bhatinda measuring 266.58 square yards

bearing Title Deed No. 7622 dated 15.12.2017 in the name of Sh. Kunal Garg. Plot No. 142 Part I & II, Green City, Bhatinda measuring 266.66 square yards bearing Title Deed No. 7623 dated 15.12.2017 in the name of Sh. Kunal Garg. Plot No. 143 Part I & II. Green City, Bhatinda measuring 266.66 square yards bearing Title Deed No. 7621 dated 15.12.2017 in the name of Sh. Kunal Garg. Plot No. 144 Part I & II, Green City, Bhatinda measuring 266.66 square yards bearing Title Deed No. 7620 dated 15.12.2017 in the name of Sh. Kunal Garg.

 Plot No. 145 Part I & II, Green City, Bhatinda measuring 266.66 square yards bearing Title Deed No. 7719 dated 19.12.2017 in the name of Sh. Kunal Garg. Plot MCB Z-3 04783 measuring 336.75 square yards (263.25 square yards vide RTD No. 2833 dated 22.05,2008 and 73.50 square yards vide RTD No. 2834 dated 22.05.2008) situated at New Vishal Nagar, Opp. Suraj Giri Ji Mandir, New Shakti Nagar, Bhatinda in the name of Sh. Kunal Garg.

We hereby call upon you to pay the amount of Rs. 31,27,71,934.85 (Rupees Thirty One Crore Twenty Seven Lakh Seventy One Thousand Nine Hundred Thirty Four and Eighty Five paisa only) with further interest w.e.f. 01.04.2021 at the contracted rate & other charges, if any until payment in full within 60 days (sixty days) from the date of this notice. In default, besides exercising other rights of the Bank available under Law, the Bank is intending to exercise any or all of the powers as provided under section 13(4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (hereinafter referred to as "the Act"). The details of the secured asset/s intended to be enforced by the Bank, in the event of nonpayment of secured debt by you are as under:

- Hypothecation of stock of goods(Edible oils & Non Edible oils) lying in the godowns / depots of the party or in transit.
- Land within Municipal Limits and Commercial Zone as per the Master Plan situated at Malout Road. Near Volkswagen showroom, Bhatinda bearing RTD No. 7820 dt 31.12.2007 for 19 Bigha 11 Biswas RTD No. 2191 dt. 11.06.2007 for 19 Bigha 11 Biswas, RTD No. 9286 dt. 07.02.2008 for 3 Bigha 6 Biswas & RTD No. 6411 dt. 21.11.2007 for 11 Bigha 0.71 Biswas; Total Land measuring 53 Bighas 8.71 Biswas in the name of M/s VRC Township private limited.
- Plot No. 141, Part I & II, Green City, Bhatinda measuring 266.58 square yards bearing Title Deed No. 7622 dated 15.12.2017 in the name of Sh. Kunal Garg.
- Plot No. 142 Part I & II, Green City, Bhatinda measuring 266.66 square yards bearing Title Deed No. 7623 dated 15.12.2017 in the name of Sh. Kunal Garg.
- Plot No. 143 Part I & II, Green City, Bhatinda measuring 266.66 square yards bearing Title Deed No.
- 7621 dated 15.12.2017 in the name of Sh. Kunal Garg. Plot No. 144 Part I & II, Green City, Bhatinda measuring 266.66 square yards bearing Title Deed No.
- 7620 dated 15.12.2017 in the name of Sh. Kunal Garg Plot No. 145 Part I & II, Green City, Bhatinda measuring 266.66 square yards bearing Title Deed No. 7719 dated 19.12.2017 in the name of Sh. Kunal Garg.
- Plot MCB Z-3 04783 measuring 336.75 square yards (263.25 square yards vide RTD No. 2833 dated 22.05.2008 and 73.50 square yards vide RTD No. 2834 dated 22.05.2008) situated at New Vishal Nagar, Opp. Suraj Giri Ji Mandir, New Shakti Nagar, Bhatinda in the name of Sh. Kunal Garg.
- Your attention is hereby drawn invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to you to redeem the secured assets. Please take notice that in terms of section 13(13) of the said Act, you shall not, after receipt of this notice transfer by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the

secured assets above referred to, without prior written consent of the Bank You are also put on notice that any contravention of this statutory injunction/restraint, as provided under the said Act, is an offence. If for any reason, the secured assets are sold or leased out in the ordinary

course of business, the sale proceeds or income realized shall be deposited/remitted with/to the Bank You will have to render proper account of such realization/income. "We reserve our rights to enforce other secured assets. Please comply with this demand under this notice and avoid all unpleasantness. In case of non-

compliance, further needful action will be resorted to, holding you liable for all costs and consequences. *This notice is issued without prejudice to the bank taking legal action before DRT/Court, as the case

*This notice is issued without prejudice to the bank's rights in the suit/litigation pending before DRT/Court.

Yours faithfully, For Punjab National Bank Chief Manager, AUTHORISED OFFICER BHARAT PRAKASHAN (DELHI) LIMITED

Regd. Office: 2322, Sanskriti Bhawan, Laxmi Narayan Street, Paharganj, New Delhi-110055 Tel.: 011-47642026, E-mail: info@bpdl.in CIN: U22110DL1946PLC001017

NOTICE OF 76th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

Notice is hereby given that the 76th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the BHARAT PRAKASHAN (DELHI) LIMITED is scheduled to be held on Thursday, the September 30, 2021 at 03:00 PM (IST) at Jhandewalan Mata Mandir Auditorium, Jhandewalan, New Delhi-110055, to transact the business, as set out in the Notice convening the said AGM.

Members may note that Notice of the AGM alongwith Annual Report have been dispatched to their respective addresses registered with the Company on September 4, 2021.

MANNER OF REGISTERING / UPDATING EMAIL ADDRESSES:

Members holding shares in physical form and who have not yet registered/updated their email address are requested to register / update the same by writing to Alankit assignments Limited (RTA) at: rta@alankit.com alongwith copy of signed letter mentioning- Name of the Shareholder, Folio No., Address, No. of Shares held along with scanned copy of Share certificate (front and back), self-attested copy of PAN card, self-attested copy of Aadhar and copy of cancelled cheque.

Members holding shares in dematerialized mode and who have not yet registered / updated their email address are requested to get their email address registered / updated with their respective Depository participants.

BOOK CLOSURE

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 20, 2021 (Monday) to September 27, 2021 (Monday).

INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING AGM

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 duly amended and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by Institute of Company Secretaries of India, as amended from time to time, the company is providing to its members the facility of remote e-voting before the AGM, in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the company has appointed NSDL to facilitate voting through electronic means. The detailed instructions for remote e-voting are given in the notice of AGM and also available at the website of NSDL. Members are requested to note the following:

- (a) The remote e-voting shall commence on September 27, 2021 at 10:00 A.M. (IST) and shall end on September 29, 2021 at 05.00 P.M. (IST). The remote e-voting module will be disabled by NSDL thereafter and members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.
- (b) The voting rights of the members will be in proportion to their share of the paid-up capital of the company as on September 23, 2021(Cut Off date). A person whose name is recorded in the Register of members / Register of beneficial owners as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of e-voting
- (c) Any person who acquires shares or becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. September 23, 2021, may obtain the login ID and password for e-voting by sending a request to NSDL at their email Id: evoting@nsdl.co.in or may contact their toll free number: 1800-1020-990 or 1800-2244-1020
- (d) The members who have already case their vote by remote e-voting prior to the AGM will have right to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their votes again during AGM.
- (e) The procedure for electronic voting is available in the notice of AGM as well as in the email sent to the members by NSDL.
- (f) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-1020-990 and 1800-2244-30 or send a request at evoting@nsdl.co.in.
- (g) Ajay Baroota, (Membership no. 3495 & CP no. 3945), Prop. Ajay Baroota & Associates, Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer for providing facility to the members of the Company to scrutinize the voting during the AGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

For Bharat Prakashan (Delhi) Limited

Place: New Delhi Dated: September 3, 2021 (NAME: BHARAT BHUSHAN ARORA) Managing Director DIN:01065301



punjab national bankTogether for the better

मध्य कॉपॅरिट केंद्र, बठिंडा एस.सी.ओ. 29-31, मॉडल टाऊन, फेस - 1, बठिंडा - 151001. ई-मेल: clpc6360@pnb.co.in

SI - 460 Days' Notice to Borrower Regd. Post

Date: 29.04.2021

Sh. Saran Dass S/o Sh. Nohar Chand, #2935, Namdev Marg, Bathinda - 151001 Dear Sir.

NOTICE U/S 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. Reg: Account No. 0050008700009274 of CC facilty, NFB facility & 005000CF00000785 of CFITI

facility /credit facilities availed by M/s G.K. Continental Trades Pvt Ltd.

M/s G.K. Continental Trades Pvt Ltd Through Directors Smt Usha Garg and Sh Saran dass; Aggarsair Nagar, Amrik Singh Road Bathinda – 151001 have availed the following credit facilities:

Balance outstanding as on Interest w.e.f. Total outstanding as on date o date of NPA 31.03.2021 (ie.,

Facility Limit Interest issuance of Notice 01.04.2021 principal + interest) Rs. 31,09,71,273.31 Further FB Rs. Rs. 31,09,71,273.31 11.00% + further interest w.e.f. interest w.e.f. 32,00,00,000.00 & NFB 01.04.2021 + Charges, if any 01.04.2021

Rs. 98,88,487.00 Further CFITL Rs. 98,88,487.00 + further interest w.e.f. 11.00% interest w.e.f. 94,30,399.00 01.04.2021 + Charges, if any 01.04.2021 Rs. 32,08,59,760.31 Further Rs. 32,08,59,760.31 TOTAL + further Interest w.e.f. nterest w.e.f. + further Interest 01.04.2021 01.04.2021 + Charges, if any Due to nonpayment of instalment/ interest/ principal debt, the account/s has/have been classified as Non Performing Asset as per Reserve Bank of India guidelines. We have demanded/recalled the entire

outstanding together with interest and other charges due under the above facilities from the Borrower, vide letter dated 05.04.2021, copy of which has already been sent to you. We have invoked the guarantee vide letter dated 07.04.2021 The amount due to the Bank as on 31.03.2021 is Rs. 32,08,59,760.31 (Rupees Thirty Two Crore Eight

akh Fifty Nine Thousand Seven Hundred Sixty and Thirty One paisa only) with further interest w.e.f. 01.04.2021 & Charges if any until payment in full (hereinafter referred to as "secured debt"). To secure the outstanding under the above said facilities, M/s G.K. Continental Trades Pvt Ltd have, inter

alia, created security interest in respect of the following properties/assets: Sr. Facility Security No.

1.	Non-fund based & CFITL (COVID Funded Interest	Primary Security → Hypothecation of stock of goods (Edible oils & Non Edible oils) lying in the godowns / depots of the party or in transit and all Book Debts Assignment of documents covering consignment by bill of lading along with shipping documents. Collateral security — FDRs Immovable properties, mentioned below: EM on Vacant residential plot situated at MC No. 1499 E, Known as old Kundan Lal Trust, Street No 2, Nai Basti,Bathinda bearing RTD No. 1104, 1105 & 1106 dt. 15.05.2009 in the name of Sh. Saran Dass Garg S/o Sh. Nohar Chand. EM of Commercial Building i.e Three Story Shop situated at MC No. 4664, Dhobi Bazar, Bathinda bearing RTD No. 4279, 4280 dt. 13.09.2013 & RTD No. 4569, 4570

We hereby call upon you to pay the amount of Rs. 32,08,59,760.31 (Rupees Thirty Two Crore Eight Lakh Fifty Nine Thousand Seven Hundred Sixty and Thirty One paisa only) with further interest w.e.t 01.04.2021 & Charges if any at the contracted rate until payment in full within 60 days (sixty days) from the date of this notice. In default, besides exercising other rights of the Bank available under Law, the Bank is intending to exercise any or all of the powers as provided under section 13(4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (hereinafter referred to as "the Act"). The details of the secured asset/s intended to be enforced by the Bank, in the event of nonpayment of secured debt by you are as under:

dt. 25.09.13 in the name of Kunal Garg S/o Sh. Gurdas Garg

- Hypothecation of stock of goods (Edible oils & Non Edible oils) lying in the godowns / depots of the
- EM on Vacant residential plot situated at MC No. 1499 E, Known as old Kundan Lal Trust, Street No. 2, Nai Basti, Bathinda bearing RTD No. 1104, 1105 & 1106 dt. 15.05.2009 in the name of Sh Saran Dass Garg S/o Sh. Nohar Chand.
- EM of Commercial Building i.e Three Story Shop situated at MC No. 4664, Dhobi Bazar, Bathinda bearing RTD No. 4279, 4280 dt. 13.09.2013 & RTD No. 4569, 4570 dt. 25.09.13 in the name of Kunal Garg S/o Sh. Gurdas Garg. Your attention is hereby drawn invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect

of time available to you to redeem the secured assets. Please take notice that in terms of section 13(13) of the said Act, you shall not, after receipt of this notice, transfer

by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured assets above referred to, without prior written consent of the Bank. You are also put on notice that any contravention of this statutory injunction/restraint, as provided under the said

Act, is an offence. If for any reason, the secured assets are sold or leased out in the ordinary course of business, the sale proceeds or income realized shall be deposited/remitted with/to the Bank. You will have to render proper account of such realization/income.

"We reserve our rights to enforce other secured assets. Please comply with this demand under this notice and avoid all unpleasantness. In case of non-compliance, further needful action will be resorted to, holding you liable for all costs and consequences.

*This notice is issued without prejudice to the bank's rights in the suit/litigation pending before DRT/Court.

This notice is issued without prejudice to the bank taking legal action before DRT/Court, as the case may be.

Chief Manager, AUTHORISED OFFICER

NOTICE FOR SALE OF ASSETS UNDER INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016 STERLING VEHICLES & GENERAL SALES PRIVATE LIMITED

(IN LIQUIDATION) Regd Office: 6-A, Tata Appartment, 23, Prithvi Raj Road, New Delhi-110001 Liquidator's Address: LGF, J-12, Jangpura Extension, New Delhi-110014 Email: liquidator.sterlingvehicles@gmail.com | Mobile No: 9810970099

S. | BRIEF DESCRIPTION OF ASSETS | RESERVE PRICE (IN INR LACS) (IN INR LACS) FOR SALE 1. Plant & Machinery including Pipe, ₹ 1.44 ₹ 14.40 Fittings & Special Tools at Automobile Workshop (Audi) at NOIDA (UP) 2. Spare Parts and Accessories of ₹ 31.50 ₹ 3.15 Automobile (Audi) at NOIDA (UP) Date of Inspection: 09th September 2021 to 16th September 2021.

Contact Person For Inspection: Mr. Mustak Khan, Mobile No. 9582321503 Terms & Conditions of the sale is as under: E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER IS BASIS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS" as such sale is without any kind of warranties and indemnities.

(from 12.00 Noon to 4.00 PM.) with prior intimation to the liquidator.

Time & Date of E-Auction: 18th September 2021 (3.30 PM. to 5.30 PM.)

EOI Submission last date: 17th September 2021 till 6 PM.

Bids shall be submitted to Liquidator (online or hard copy) in the format prescribed. The bid form along with detailed terms & conditions of complete E-auction process can be downloaded from the website: https://eauctions.org/ or E-mail at

liquidator.sterlingvehicles@gmail.com nterested bidders may contact Liquidator for inventory list and further details in order to submit the bid.

SUNIL PARAKASH SHARMA, Liquidator Date: 08/09/2021 Place: New Delhi Regn. No: IBBI/IPA-002/IP-N00551/2017-18/11726

RAAMA PAPER MILLS LIMITED

[Formerly known as Rama Paper Mills Limited] 4th Km. Stone Najibabad Road, Kiratpur-246731 District Bijnor U.P. CIN: L27104UP1985PLC007556

Website: www.ramapaper.com, E-mail: cs@ramapaper.com NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND ELECTONIC VOTING INFORMATION OF RAAMA PAPER MILLS LIMITED

Annual General Meeting : Notice is hereby given that the Thirty Sixth Annual General Meeting of

the Mambers of M's RAAMA PAPER MILLS LIMITED (Formerly known as M's Rama Paper Mills

Limited) will be held on Thursday, the 30 th September, 2021 at 03:00 P.M through Video

Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (DAVM) to transact the business mentioned in the notice. Notice of the said AGM, e-voting instructions and Annual report for the year 2020-2021 have been sent to the members of the company electronically whose email-ids are registered with the depositiones. A copy of Annual Report 2020-2021 along with the AGM notice and the instructions for Bectronic Voting (e-voting) will also be made available on the website of the company www.ramapaper.com/. Book Closure: Notice is also hereby given that pursuant to the Section 91 of Companies Act, 2013,

read with Rule 10 of the Companies [Management and Administration] Rules, 2014 and other applicable provisions, if any, and in compliance with SEBLLDDR Regulation, 2015 with the Stock Exchanges, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain close from 24th September, 2021 to 30 th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company scheduled on 30 th September, 2021, at 03,00 pm through Video Conterencing (VC) or Other Audio Visual Means (DAVM).

Bectronic Voting Information : Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date 23 rd September, 2021 may dast their vote electronically on the ordinary and special businesses as set out in the Notice of the 36 th Annual General meeting through electronic voting system of NSDL. All the members are informed that [a] the ordinary business and special business as set out in the notice of the 36th AGM may be transacted by electronic voting (b) the date of completion of sending of notice of 36th AGM is 8th September 2021. (c) voting through electronic means shall commence at 09:00 am on 27th September, 2021 and ends at 5:00 pm on 29th September, 2021 (d) voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 pmon 29th September; 2021 (a) Notice of the 36th AGM will be made available on the company's website i.e. www.ramapaper.com and on NSDL website i.e. https:// //www.evoting.nsdi.com [1] for process and manner of electronic voting, members may go through the electronic voting instructions or in case of any quenes/igney ances connected with the e-voting. members may refer the frequently asked questions [FAD's] for shareholders and the e-voting user manual for the shareholders available at the download section of https://www.evoting.nsdi.com/ or alternatively can contact at email id of company cs@ram apaper.com

By order of the Board FOR RAAMA PAPER MILLS LIMITED [Formerly known as Rama Paper Mills Limited]

Himanshu Duggal

(Company Secretary)

MOMAXE

Date : 08.09.2021

Place: New Delhi

OMAXE LIMITED (CIN: L74899HR1989PLC051918) Regd. Office: Shop No-19 B, First Floor, Omaxe Celebration Mall, Sohna Road, Gurugram, Haryana-122001, Corp. Office: Omaxe House, 7, Local shopping Complex, Kalkaji, New Delhi-110019

NOTICE OF 32ND ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'ACT') and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("Listing Regulations") read with relevant circular issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular") and also Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the members of Omaxe Limited ("Company") will be held on Thursday, September 30, 2021 at 12:00 noon through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the members at the common venue to transact the Ordinary and Special Businesses as stated in the Notice convening the

Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and SEBI circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021, Notice of the AGM together with the Financial Statements (Standalone and Consolidated) for the financial year ended on March 31, 2021 including the Schedules thereto and reports of Board of Directors & Auditors, Report on Corporate Governance. The instruction for e-voting and participation in the AGM have been sent through electronic mode to those Members whose email IDs are available with the Company/Depositories/RTA in accordance with the aforesaid MCA circulars & SEBI Circulars. The electronic dispatch of Annual Report to the Members has been completed on September 08, 2021. The Notice of the 32nd AGM along with the Annual Report for the FY 2020-21 are also available on the Company's website www.omaxe.com and website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of Link Intime. India Private Limited at URL:https://instameet.linkintime.co.in

(Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote by electronic means on proposed resolutions to be passed at AGM. The voting rights of Members shall be as per the number of equity shares held by the members as on the cut-off/record date which is Thursday, September 23, 2021. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and to participate in the

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies

The e-voting period commences on Monday, September 27, 2021 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, September 29, 2021 at 5.00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by Link Intime India Private Limited for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholders shall not be allowed to change it subsequently. The members who may have cast their vote through remote e-voting may participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be allowed to cast their vote again through e-voting facility during the AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Thursday, September 23, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at instameet@linkintime.co.in or contact on 022-49186175. For the procedure of electronic voting please refer to the detailed instructions for e-voting

which forms part of the Notice of 32nd Annual General Meeting before exercising your voting right. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available on the website https://instameet.linkintime.co.in under the Help & FAQ's Section or you can contact on 022-49186175 or at designated e-mail ID instameet@finkintime.co.in, who will address the grievances related to electronic voting. The Members may also write to the Company Secretary at investors@omaxe.com

Members who have not registered their email ID with the depository participants, are requested to register their email ID with their depository participants in respect of shares held in electronic form and in respect of shares held in physical form, are requested to submit their request with their valid email ID to our RTA at delhi@linkintime.co.in or investors@omaxe.com along with signed scanned copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and copy of share certificate. Those members who have registered their e-mail address, mobile number, postal address and bank account details are requested to validate/update their registered details by contacting their Depository Participant in case share held in electronic mode or by contacting our RTA

instameet.linkintime.co.in / by using their remote e-voting login credentials and selecting the 'Event' for Company's AGM. Members who do not have the User ID and Password for evoting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-voting instructions mentioned in the Notice.

Members may participate in the AGM through VC/ OAVM at https://

Members, who need technical assistance before or during the AGM, can contact RTA at https://instameet.linkintime.co.in. Facility of joining the AGM through VC / OAVM shall open 15 minutes before the time

scheduled for the AGM and will be available for Members on first come first served basis. Members, who would like to ask questions during the 32nd AGM need to register themselves: as a speaker by sending their request from their registered email address mentioning their name, DPID and Client ID number/folio number and mobile number, on the email addresses investors@omaxe.com or by downloading and installing the Webex application by clicking on the link https://www.webex.com/downloads.html/. from September 27, 2021 at 9.00 am (IST) to September 29, 2021 at 5.00 pm (IST). Those Members who have registered themselves as a speaker only shall be allowed to ask questions during the 32nd AGM, depending upon the availability of time, However, it is requested to raise the questions precisely and in short at the time of meeting to enable us to answer the same. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for

SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 24, 2021 to Thursday, September 30, 2021 (both days inclusive) in connection with Annual General Meeting and annual closing. By order of the Board

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the

For Omaxe Limited

Navin Jain Company Secretary

financiales epap.in

Tel: 022 43476017, E-mail: compliance.dataline@gmail.com NOTICE





Yours faithfully. For Punjab National Bank

Place: New Delhi

New Delhi

Date: September 08, 2021

Tel: 011-41896680-85; Fax: 011-41896653 Email: secretarial_1@omaxe.com | Website: www.omaxe.com NOTICE